

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 1901#
गुरुवार, 16 मार्च, 2023/25 फाल्गुन, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

विदेशी पर्यटकों की आमद

1901#. श्री नारायण दास गुप्ता:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में कोविड-19 महामारी में कमी आने के बाद विदेशी पर्यटकों की आमद में वृद्धि हुई है;
- (ख) क्या भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई विशेष छूट और सुविधाएं दी जा रही हैं; और
- (ग) यदि हां, तो वर्ष 2021 और 2022 के दौरान भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों का माह-वार और उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ग) : जी हां, महोदय । देश में कोविड-19 महामारी में कमी आने के बाद विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि हुई है । वर्ष 2021 और 2022 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) और पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय (एफईई) का माह-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है ।

(ख) : कोविड के पश्चात् इनबाउंड पर्यटन को बहाल करने और देश में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने संभावित पर्यटन बाजारों से आने वाले विदेशी पर्यटकों को पहले 5 लाख वीजा निःशुल्क प्रदान किए हैं । पहले 5 लाख पर्यटक वीजा जारी किए जाने के दौरान प्रति पर्यटक द्वारा केवल एक बार ही निःशुल्क वीजा का लाभ उठाने की सुविधा उपलब्ध थी । यह योजना 31.03.2022 तक वैध थी ।

अनुबंध

विदेशी पर्यटकों की आमद के संबंध में दिनांक 16.03.2023 के राज्य सभा के लिखित प्रश्न सं. 1901# के भाग (क) से (ग) के उत्तर में विवरण

वर्ष 2021 के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ वर्ष 2022 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए)

| माह | 2021 | 2022@ | वृद्धि 2022/21@ |
|---------------------|-----------|-----------|-----------------|
| जनवरी | 94,662 | 2,01,546 | 112.9% |
| फरवरी | 1,10,312 | 2,40,896 | 118.4% |
| मार्च | 1,33,768 | 3,42,308 | 155.9% |
| अप्रैल | 78,718 | 3,92,930 | 399.2% |
| मई | 19,765 | 4,23,701 | 2043.7% |
| जून | 36,070 | 5,22,737 | 1349.2% |
| जुलाई | 72,501 | 6,40,858 | 783.9% |
| अगस्त | 92,728 | 4,98,243 | 437.3% |
| सितम्बर | 1,15,661 | 5,36,340 | 363.7% |
| अक्तूबर | 1,91,415 | 6,56,895 | 243.2% |
| नवम्बर | 2,63,867 | 7,68,675 | 191.3% |
| दिसम्बर | 3,17,647 | 9,66,270 | 204.2% |
| कुल (जनवरी-दिसम्बर) | 15,27,114 | 61,91,399 | 305.4% |

@: अनंतिम

स्रोत: आप्रवासन ब्यूरो

वर्ष 2021 के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ वर्ष 2022 में पर्यटन के माध्यम से भारत में विदेशी मुद्रा आय (करोड़ रु. में)

| माह | 2021 | 2022 #1 | 2022/21 #1 |
|--------|-------|---------|------------|
| जनवरी | 4,700 | 3,587 | -23.68% |
| फरवरी | 5,477 | 4,281 | -21.83% |
| मार्च | 6,642 | 6,105 | -8.09% |
| अप्रैल | 6,891 | 9,611 | 39.47% |
| मई | 1,730 | 10,363 | 498.99% |
| जून | 3,157 | 12,766 | 304.36% |

| | | | |
|---------------------|--------|----------|---------|
| जुलाई | 4,105 | 15,496 | 277.50% |
| अगस्त | 5,251 | 12,074 | 129.93% |
| सितम्बर | 6,549 | 13,064 | 99.48% |
| अक्टूबर | 5,094 | 13,046 | 156.11% |
| नवम्बर | 7,022 | 15,149 | 115.74% |
| दिसम्बर | 8,452 | 19,002 | 124.82% |
| कुल (जनवरी-दिसम्बर) | 65,070 | 1,34,543 | 106.77% |

#1: अनंतिम अनुमान
